

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2012-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 381]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई 2019—आषाढ़ 25, शक 1941

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 12 जुलाई 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-53/2019/18.—छ.ग. नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, नगर पालिका परिषद् सक्ती, जिला-जांजगीर-चांपा के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्वारा अवधारित करता है :—

1. नगरपालिका परिषद् सक्ती को 18 वार्डों में विभाजित करता है और अनुसूची में दर्शाये अनुसार ऐसे प्रत्येक वार्ड की सीमा निर्धारित करता है।

2. यह अधिसूचित करता है कि ऐसे प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित किया जाएगा ।

अनुसूची

वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1	हरिजनपारा वार्ड
2	कसेरपारा वार्ड
3	राजापारा वार्ड
4	बाजारपारा वार्ड
5	अस्पताल वार्ड
6	गुरुद्वारा वार्ड
7	हटरी वार्ड
8	हरिगुजर वार्ड
9	रानी सागर वार्ड
10	अखरा भाठा वार्ड
11	नारायण सागर वार्ड
12	महामाया वार्ड
13	अग्रसेन वार्ड
14	कचहरी वार्ड
15	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
16	झूलकदम वार्ड
17	डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड
18	स्टेशन पारा वार्ड

नगर पालिका परिषद् सक्ती के वार्डों की चतुर्सीमा का विवरण

वार्ड क्रमांक 01 हरिजनपारा वार्ड

- उत्तर :- कौंदी बाई के घर से पूर्व में मिरतन कॅवट के घर तक ।
 पूर्व :- मिरतन कॅवट के घर से दखिण में पुरुषोत्तम अग्रवाल के घर तक ।
 दक्षिण :- पुरुषोत्तम अग्रवाल के घर से पश्चिम में राष्ट्रीय राजमार्ग 200 पर चलते कसेरपारा हाई स्कूल तक ।
 पश्चिम :- कसेरपारा हाई स्कूल से उत्तर की ओर चलते कौंदी बाई के घर तक ।

वार्ड क्रमांक 02 कसेरपारा वार्ड

- उत्तर :- संतोष कुमार यादव के मकान से पूर्व में चलते साहू के भवन तक।
 पूर्व :- साहू के मकान से दक्षिण में चलते अमरसाय उरांव के भवन तक।
 दक्षिण :- अमरसाय उरांव के मकान से पश्चिम में दुकाल सागर तालाब के दक्षिण पश्चिम सीमा होते रुपनारायण देवांगन के मकान तक।
 पश्चिम :- रुपनारायण देवांगन के मकान से उत्तर की ओर गार्डन किनारे से संतोष कुमार यादव के मकान तक।

वार्ड क्रमांक 03 राजापारा वार्ड

- उत्तर :- एस.एल.आर.एम. सेंटर से पूर्व की ओर अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास तक।
 पूर्व :- अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास से दक्षिण की ओर ननकुसिया के मकान तक।
 दक्षिण :- ननकुसिया के मकान से पश्चिम की ओर पैदू तालाब की दक्षिण पश्चिम सीमा तक।
 पश्चिम :- पैदू तालाब की दक्षिण पश्चिम सीमा से उत्तर की ओर एस. एल.आर.एम. सेंटर तक।

वार्ड क्रमांक 04 बाजारपारा वार्ड

- उत्तर :- सक्ती नगर सीमा स्वागत द्वार से पूर्व की ओर स्टेडियम तक दोनों ओर।
 पूर्व :- स्टेडियम से दक्षिण में सोसायटी चौक तक।
 दक्षिण :- सोसायटी चौक से पश्चिम में मुस्लिम कब्रिस्तान तक।
 पश्चिम :- मुस्लिम कब्रिस्तान से उत्तर में सक्ती नगर सीमा स्वागत द्वार तक।

वार्ड क्रमांक 05 अस्पताल वार्ड

- उत्तर :- साहू टाल से पूर्व की ओर इंदरमल के मकान तक फिर दक्षिण में माया डेंटल क्लीनिक, पूर्व में हास्पिटल क्वाटर तक।
 पूर्व :- हास्पिटल क्वाटर से दक्षिण में अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) कार्यालय तक।
 दक्षिण :- अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) कार्यालय से स्टेट बैंक शाखा कार्यालय तक।
 पश्चिम :- स्टेट बैंक शाखा कार्यालय से उत्तर में घसिया पान ठेला वाले के मकान से दोनों तरफ लेते हुए साहू टाल तक।

वार्ड क्रमांक 06 गुरुद्वारा वार्ड

- उत्तर :- कालू अग्रवाल के मकान से पूर्व में रमापति तिवारी के मकान तक।
 पूर्व :- रमापति तिवारी के मकान से दक्षिण में राममंदिर सत्संग भवन तक।
 दक्षिण :- राममंदिर सत्संग भवन से पश्चिम में गौरवपथ होते हुए हास्पिटल कालोनी तक।
 पश्चिम :- हास्पिटल कालोनी से उत्तर में कालू अग्रवाल के मकान तक।

वार्ड क्रमांक 07 हटरी वार्ड

- उत्तर :- गौरवपथ में स्टेट बैंक ए.टी.एम. से पूर्व में नंदे अग्रवाल घर तक।
 पूर्व :- नंदे अग्रवाल घर से दक्षिण में लल्ला खान घर तक।
 दक्षिण :- लल्ला खान घर से पश्चिम में एम.के.इलेक्ट्रानिक्स दुकान तक।
 पश्चिम :- एम.के.इलेक्ट्रानिक्स दुकान से उत्तर में गौरवपथ पर स्टेट बैंक ए.टी. एम. तक।

वार्ड क्रमांक 08 हरिगुजर वार्ड

- उत्तर :- सी.एस.ई.बी. कालोनी से पूर्व में संजय चाल तक।
 पूर्व :- संजय चाल से दक्षिण में अम्बे ज्वेलर्स तक।
 दक्षिण :- अम्बे ज्वेलर्स से पश्चिम में दर्री तालाब के दक्षिण पश्चिम सीमा तक।
 पश्चिम :- दर्री तालाब दक्षिण पश्चिम सीमा से उत्तर में सी.एस.ई.बी. कालोनी तक।

वार्ड क्रमांक 09 रानीसागर वार्ड

- उत्तर :- विजय कुमार साहू के मकान से पूर्व में मुरारी लाल अग्रवाल के मकान तक।
 पूर्व :- मुरारी लाल अग्रवाल के मकान से दक्षिण में मुकेश अग्रवाल (डी.एम.) के मकान तक।
 दक्षिण :- मुकेश अग्रवाल (डी.एम.) के मकान से पश्चिम में लक्ष्मी सोनी घर तक।
 पश्चिम :- लक्ष्मी सोनी के मकान से उत्तर में विजय कुमार साहू के मकान तक।

वार्ड क्रमांक 10 अखरा भाठा वार्ड

- उत्तर :- राम प्रसाद यादव के मकान से पूर्व में उर्मिला देवांगन के मकान तक।
 पूर्व :- उर्मिला देवांगन के मकान से दक्षिण में दुकाल सागर तालाब के दक्षिण पश्चिम सीमा होते हुए पूर्व में छगन लाल रैदास के मकान होते हुए चांगो डबरी के दक्षिण पूर्वी सीमा तक।
 दक्षिण :- चांगो डबरी के दक्षिण पूर्वी सीमा से पश्चिम में रोशन देवांगन के मकान तक।
 पश्चिम :- रोशन देवांगन के मकान से उत्तर में राम प्रसाद यादव के मकान तक।

वार्ड क्रमांक 11 नारायण सागर वार्ड

- उत्तर :- आमंत्रण रेस्टोरेंट से पूर्व में वंदना इंजीनियरिंग तक।
 पूर्व :- वंदना इंजीनियरिंग से दक्षिण में खेतीहर भूमि होते हुए चंद्रकुमार देवांगन (युगल सायकल स्टोर्स) तक।
 दक्षिण :- चंद्रकुमार देवांगन(युगल सायकल स्टोर्स) से पश्चिम में मनसाराम सत्यनारायण के मकान तक।
 पश्चिम :- मनसाराम सत्यनारायण के मकान से उत्तर में आमंत्रण रेस्टोरेंट तक।

वार्ड क्रमांक 12 महामाया वार्ड

- उत्तर :- नगर पालिका पुराना औषधालय से पूर्व में अम्बे ज्वेलर्स के खाली प्लाट तक।
 पूर्व :- अम्बे ज्वेलर्स के खाली प्लाट से दक्षिण में हरीश देवांगन के मकान तक।
 दक्षिण :- हरीश देवांगन के मकान से पश्चिम में दिवान घर तक।
 पश्चिम :- दिवान घर से उत्तर में नगर पालिका पुराना औषधालय तक।

वार्ड क्रमांक 13 अग्रेसन वार्ड

- उत्तर :- रसूल मोहम्मद के मकान से पूर्व में गलारा देवांगन के मकान होते हुए महामाया मंदिर तक।
 पूर्व :- महामाया मंदिर से दक्षिण में थाना प्रभारी के निवास तक।
 दक्षिण :- थाना प्रभारी के निवास से पश्चिम में आरक्षी केन्द्र (थाना) तक।
 पश्चिम :- आरक्षी केन्द्र (थाना) से उत्तर में रसूल मोहम्मद के निवास तक।

वार्ड क्रमांक 14 कचहरी वार्ड

- उत्तर :- चिंताराम कालोनी से पूर्व में नरेन्द्र लोधी का मकान फिर दक्षिण में विष्णु अग्रवाल का मकान से पूर्व में अग्रसेन चौक तक।
 पूर्व :- अग्रसेन चौक से दक्षिण में लोक निर्माण विभाग कार्यालय तक।
 दक्षिण :- लोक निर्माण विभाग कार्यालय से पश्चिम में बी.एस.एन.एल. टावर के बगल कृषि विस्तार अधिकारी कार्यालय तक।
 पश्चिम :- बी.एस.एन.एल.टावर के बगल कृषि विस्तार अधिकारी कार्यालय से उत्तर में चिंताराम कालोनी तक।

वार्ड क्रमांक 15 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड

- उत्तर :- चतुर चंद्र के मकान से पूर्व में सूरजभान सायकल स्टोर्स तक।
 पूर्व :- सूरजभान सायकल स्टोर्स से दक्षिण में सी.एस.ई.बी. कार्यालय तक।
 दक्षिण :- सी.एस.ई.बी. कार्यालय से पश्चिम में सिल्वर फैक्ट्री तक।
 पश्चिम :- सिल्वर फैक्ट्री से उत्तर में चतुर चंद्रा के मकान तक।

वार्ड क्रमांक 16 झूलकदम वार्ड

- उत्तर :- रामअवतार अग्रवाल के मकान से पूर्व में देवेन्द्र राठौर के मकान तक।
 पूर्व :- देवेन्द्र राठौर के मकान से दक्षिण में आर.एन.पटेल के मकान तक।
 दक्षिण :- आर.एन.पटेल के मकान से पश्चिम में रानीसती इलेक्ट्रानिक्स तक।
 पश्चिम :- रानीसती इलेक्ट्रानिक्स से उत्तर में रामअवतार अग्रवाल के मकान तक।

वार्ड क्रमांक 17 डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड

- उत्तर :- डॉ एम.एच.कुरैशी के मकान से पूर्व में हरिओम कालोनी तक।
 पूर्व :- हरिओम कालोनी से दक्षिण में सोंटी रेलवे फाटक तक।
 दक्षिण :- सोंटी रेलवे फाटक से पश्चिम में बलदाऊ प्रसाद राठौर के मकान तक।
 पश्चिम :- बलदाऊ प्रसाद राठौर के मकान से उत्तर में डॉ एम.एच. कुरैशी के मकान तक।

वार्ड क्रमांक 18 स्टेशन पारा वार्ड

- उत्तर :- नोवेल वर्मा के राईस मिल से पूर्व में मनीराम खूंटे के मकान तक।
 पूर्व :- मनीराम खूंटे के मकान से दक्षिण में शत्रुघन रात्रे के मकान तक।
 दक्षिण :- शत्रुघन रात्रे के मकान से पश्चिम में कबीर आश्रम तक।
 पश्चिम :- कबीर आश्रम से उत्तर में नोवेल वर्मा के राईस मिल तक।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 आर. एक्का, उप सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई 2019

क्रमांक एफ 01-53/2019/18.-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 01-53/2019/18 दिनांक 12/07/2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 आर. एक्का, उप सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar the 12th July 2019

No. F1-53/2019/18.&In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 29 of the Chhattisgarh Municipalities act 1961 (No.37 of 1961) the State Government hereby determine the extent of wards of **Municipal Council Sakti Distt. Janjgir-champa** as per schedule given Below :-

1. Divides **Municipal Council Sakti** into 18 wards and described the limits of each ward as shown in schedule.

2. Notified that one councilor shall be elected from each such ward.

SCHEDULE

S.No.of ward	Name of the ward
1	Harijanpara ward
2	Kaserpara ward
3	Rajapara ward
4	Bazaarpara ward
5	Aspataal ward
6	Gurudwara ward
7	Hatri ward
8	Harigujar ward
9	Ranisagar ward
10	Akhrabhata ward
11	Narayan sagar ward
12	Mahamaya ward
13	Agrasen ward
14	Kachhehri ward
15	Lal bahadur shastri ward
16	Jhulkadam ward
17	Dr. Bhimrao ambedkar ward
18	Stationpara ward

Descriptions of the Boundries of ward of Municipal Council Sakti

WARD NO - 01 - HARIJANPARA WARD

NORTH: FROM KONDI BAI HOUSE UPTO MIRTAN KEWAT HOUSE IN THE EAST
 EAST: FROM MIRTAN KEWAT HOUSE UPTO PURUSHOTTAM AGRAWAL HOUSE IN THE SOUTH
 SOUTH: FROM PURUSHOTTAM AGRAWAL HOUSE UPTO KASERPARA HIGH SCHOOL THROUGH N.H 200
 WEST: FROM KASERPARA HIGH SCHOOL TOWARDS NORTH UPTO KONDI BAI HOUSE

WARD NO - 02 - KASERPARA WARD

NORTH: FROM SANTOSH KUMAR YADAV HOUSE TOWARDS EAST UPTO SAHU BHAVAN
 EAST: FROM SAHU HOUSE TOWARDS SOUTH UPTO AMARSAAY URAAW BHAVAN
 SOUTH: FROM AMARSAAY URAAW HOUSE THROUGH SOUTH-WEST AREA OF DUKAAL SAGAR TALAAB IN THE WEST UPTO ROOPNARAYAN DEWANGAN HOUSE
 WEST: FROM ROOPNARAYAN DEWANGAN HOUSE TOWARDS NORTH BESIDE GARDEN UPTO SANTOSH KUMAR YADAV HOUSE

WARD NO - 03 - RAJAPARA WARD

- NORTH: FROM S.L.R.M CENTER TOWARDS EAST UPTO SCHEDULED CASTE GIRLS HOSTEL
EAST: FROM SCHEDULED CASTE GIRLS HOSTEL TOWARDS SOUTH UPTO NANKUSIYA HOUSE
SOUTH: FROM NANKUSIYA HOUSE TOWARDS WEST UPTO SOUTH-WEST LIMIT OF PAITHU TALAAB
WEST: FROM SOUTH-WEST LIMIT OF PAITHU TALAAB UPTO S.L.R.M CENTRE IN THE NORTH

WARD NO - 04 - BAZAARPARA WARD

- NORTH: FROM SAKTI NAGAR SEEMA SWAAGAT DWAAR UPTO BOTH SIDE OF STADIUM IN THE EAST
EAST: FROM SOUTHWARD OF STADIUM UPTO SOCIETY CHOWK
SOUTH: FROM SOCIETY CHOWK UPTO MUSLIM KABRISTAN IN THE WEST
WEST: FROM MUSLIM KABRISTAN UPTO SAKTI NAGAR SEEMA SWAAGAT DWAAR IN THE NORTH

WARD NO - 05 - ASPATAAL WARD

- NORTH: FROM SAHU TOLL TO INDERMAL HOUSE IN THE EAST, UPTO MAYA DENTAL CLINIC IN THE SOUTH AND UPTO HOSPITAL QUARTER IN THE EAST
EAST: FROM HOSPITAL QUARTER TO OFFICE OF SUB DIVISIONAL OFFICER (POLICE) IN THE SOUTH
SOUTH: FROM OFFICE OF SUB DIVISIONAL OFFICER (POLICE) UPTO OFFICE OF THE STATE BANK OF INDIA
WEST: FROM OFFICE OF THE STATE BANK OF INDIA TO HOUSE OF GHASIYA PAN CENTER IN THE NORTH TOWARDS BOTH SIDE OF SAHU TOLL

WARD NO - 06 - GURUDWARA WARD

- NORTH: FROM KALU AGRAWAL HOUSE TO RAMAPATI TIWARI HOUSE IN THE EAST
EAST: FROM RAMAPATI HOUSE TO RAM MANDIR SATSANG BHAVAN IN THE SOUTH
SOUTH: FROM RAM MANDIR SATSANG BHAVAN TO HOSPITAL COLONY THROUGH GAURAV PATH IN THE WEST
WEST: FROM HOSPITAL COLONY TO KALU LAL AGRAWAL HOUSE IN THE NORTH

WARD NO - 07 - HATRI WARD

- NORTH: FROM STATE BANK ATM GOURAV PATH TO NANDE AGRAWAL HOUSE IN THE EAST
EAST: FROM NANDE AGRAWAL HOUSE TO LALLA KHAN HOUSE IN THE SOUTH
SOUTH: FROM LALLA KHAN HOUSE TO M.K.ELECTRONICS SHOP IN THE WEST
WEST: FROM M.K.ELECTRONICS SHOP TO STATE BANK ATM GOURAV PATH IN THE NORTH

WARD NO - 08 - HARIGUJAR WARD

- NORTH: FROM C.S.E.B COLONY TO SANJAY CHAAL IN THE EAST
EAST: FROM SANJAY CHAAL TO AMBE JWELLERS IN THE SOUTH
SOUTH: FROM AMBE JWELLERS TO SOUTH-WEST AREA OF DARRI TALAAB IN THE WEST
WEST: FROM SOUTH-WEST AREA OF DARRI TALAAB TO C.S.E.B COLONY IN THE NORTH

WARD NO - 09 - RANISAGAR WARD

- NORTH: FROM VIJAY KUMAR SAHU HOUSE TO MURARI LAL AGRAWAL HOUSE IN THE EAST
EAST: FROM MURARI LAL AGRAWAL HOUSE TO MUKESH AGRAWAL (D.M) IN THE SOUTH
SOUTH: FROM MUKESH AGRAWAL HOUSE TO LAXMI SONI HOUSE IN THE WEST
WEST: FROM LAXMI SONI HOUSE TO VIJAY KUMAR SAHU HOUSE IN THE NORTH

WARD NO - 10 - AKHRABHATHA WARD

- NORTH: FROM RAM PRASAD YADAV HOUSE TO URMILA DEWANGAN HOUSE IN THE EAST
EAST: FROM URMILA DEWANGAN HOUSE TOWARDS SOUTH-WEST AREA OF DUKAAL SAGAR TALAAB THROUGH CHHAGAN LAL RAIDAS HOUSE IN THE EAST UPTO SOUTH-EAST AREA OF CHANGO DABRI
SOUTH: FROM SOUTH-EAST AREA OF CHANGO DABRI UPTO ROSHAN DEWANGAN HOUSE IN THE WEST
WEST: FROM ROSHAN DEWANGAN HOUSE UPTO RAM PRASAD YADAV HOUSE IN THE NORTH

WARD NO - 11 - NARAYAN SAGAR WARD

- NORTH: FROM AMANTRAN RESTAURANT TO VANDANA ENGINEERING IN THE EAST
EAST: FROM VANDANA ENGINEERING THROUGH KHETIHAR LAND UPTO CHANDRAKUMAR DEWANGAN (YUGAL CYCLE STORES) HOUSE IN THE SOUTH
SOUTH: FROM CHANDRAKUMAR DEWANGAN (YUGAL CYCLE STORES) HOUSE TO MANSARAM SATYANARAYAN HOUSE IN THE WEST
WEST: FROM MANSARAM SATYANARAYAN HOUSE TO AMANTRAN RESTAURANT IN THE NORTH

WARD NO - 12 - MAHAMAYA WARD

- NORTH: FROM NAGAR PALIKA OLD AUSHADHAALAY TO OPEN PLOT OF AMBE JWELLERS IN THE EAST
EAST: FROM OPEN PLOT OF AMBE JWELLERS TO HARISH DEWANGAN HOUSE IN THE SOUTH
SOUTH: FROM HARISH DEWANGAN HOUSE TO DIWAN HOUSE IN THE WEST
WEST: FROM DIWAN HOUSE TO NAGAR PALIKA OLD AUSHADHAALAY IN THE NORTH

WARD NO - 13 - AGRASEN WARD

- NORTH: FROM RASUL MOHAMMAD HOUSE THROUGH GALARA DEWANGAN HOUSE UPTO MAHAMAYA MANDIR
EAST: FROM MAHAMAYA MANDIR TO THANA INCHARGE HOUSE IN THE SOUTH
SOUTH: FROM THANA INCHARGE HOUSE TO POLICE STATION IN THE WEST
WEST: FROM POLICE STATION TO RASUL MOHAMMAD HOUSE IN THE NORTH

WARD NO - 14 - KACHHEHRI WARD

- NORTH: FROM CHINTARAM COLONY TO NARENDRA LODHI HOUSE IN THE EAST AND FROM VISHNU AGRAWAL HOUSE IN THE SOUTH UPTO AGRASEN CHOWK IN THE EAST
EAST: FROM AGRASEN CHOWK TO PUBLIC WORKS DEPARTMENT OFFICE IN THE SOUTH
SOUTH: FROM PUBLIC WORKS DEPARTMENT OFFICE UPTO OFFICE OF THE AGRICULTURAL EXTENSION OFFICER IN THE WEST
WEST: FROM OFFICE OF THE AGRICULTURAL EXTENSION OFFICER UPTO CHINTARAM COLONY IN THE NORTH

WARD NO - 15 - LAL BAHADUR SHASTRI WARD

- NORTH: FROM CHATUR CHANDR HOUSE TO SURAJBHAN CYCLE STORES IN THE EAST
EAST: FROM SURAJBHAN CYCLE STORE TO C.S.E.B OFFICE IN THE SOUTH
SOUTH: FROM C.S.E.B OFFICE TO SILVER FACTORY IN THE WEST
WEST: FROM SILVER FACTORY TO CHATUR CHANDR HOUSE IN THE NORTH

WARD NO - 16 - JHULKADAM WARD

- NORTH: FROM RAMAVTAR AGRAWAL HOUSE TO DEVENDRA RATHORE HOUSE IN THE EAST
EAST: FROM DEVENDRA RATHORE HOUSE TO R.N.PATEL HOUSE IN THE SOUTH
SOUTH: FROM R.N.PATEL HOUSE TO RANISATI ELECTRONICS IN THE WEST
WEST: FROM RANISATI ELECTRONICS TO RAMAVTAR AGRAWAL HOUSE IN THE NORTH

WARD NO - 17 - DR.BHIMRAO AMBEDKAR WARD

- NORTH: FROM DR.M.H.KURESHI HOUSE TO HARIOM COLONY IN THE EAST
EAST: FROM HARIOM COLONY TO SONTHI RAILWAY FATAK IN THE SOUTH
SOUTH: FROM SONTHI RAILWAY FATAK TO BALDAU PRASAD RATHORE HOUSE IN THE WEST
WEST: FROM BALDAU PRASAD RATHORE HOUSE TO DR.M.H.KURESHI HOUSE IN THE NORTH

WARD NO - 18 - STATION PARA WARD

- NORTH: FROM NOVEL VERMA RICE MILL TO MANIRAM KHUTE HOUSE IN THE EAST
EAST: FROM MANIRAM KHUTE HOUSE TO SHATRUGHAN RATRE HOUSE IN THE SOUTH
SOUTH: FROM SHATRUGHAN RATRE HOUSE TO KABIR ASHRAM IN THE WEST
WEST: FROM KABIR ASHRAM TO NOVEL VERMA RICE MILL IN THE NORTH

By order & In the name of Governor of Chhattisgarh,
R. EKKA, Deputy Secretary.